



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख 1938 (श०)

(सं० पटना 351) पटना, मंगलवार, 26 अप्रील 2016

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

25 अप्रील 2016

सं० 3/एम०-54/2015-सा०प्र०-5742—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु इस विभाग का संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.2015 निर्गत है। संकल्प की अनुसूची में वैसे पदों को रखा गया है जिनपर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को, संविदा के आधार पर, संकल्प के प्रावधान के तहत नियोजित किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत निम्न पदों को संकल्प, संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 की अनुसूची में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है—

क्र० सं०	विभाग का नाम	विभागीय संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पद।
1.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना के अधीन (i) सहायक अवर निरीक्षक, उत्पाद एवं (ii) उत्पाद सिपाही का पद।
2.	भवन निर्माण विभाग	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के लिए कनीय अभियंता का पद।
3.	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक का पद।
4.	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय भोजशाला में स्वीपर, वाशिंग ब्याय, सर्विस ब्याय, हेल्पर, टी मेकर एवं सहायक हलवाई का पद।
5.	पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।	पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए बिहार वन लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सहायक प्रशासी पदाधिकारी का पद।

क्र० सं०	विभाग का नाम	विभागीय संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पद।
6.	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना में बिहार अवर योजना संवर्ग के योजना सहायक एवं अवर योजना पदाधिकारी का पद।
7.	वित्त विभाग, बिहार, पटना।	स्थानिक आयुक्त बिहार भवन नई दिल्ली के अधीन (1) प्रधान लेखापाल; (2) लेखापाल का पद।
8.	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	श्रम संसाधन विभाग के श्रम सांख्यिकी संवर्ग की (1) सांख्यिकी सहायक; (2) सांख्यिकी निरीक्षक; (3) सांख्यिकी विशेषज्ञ; (4) सहायक निदेशक सांख्यिकी; (5) सांख्यिकी प्राधिकारी का पद।

3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवायें लिए जाने के संबंध में प्रशासी विभागों द्वारा उक्त संकल्प के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राम विशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 351-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>